

वधिनसभा में वत्तीय वर्ष 2023-24 के लयि 6032 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारति

चरचा में क्यों?

19 जुलाई, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वधिनसभा में वत्तीय वर्ष 2023-24 के लयि 6031 करोड़ 75 लाख 2 हज़ार 977 रुपए का पहला अनुपूरक बजट पारति कयिा गया। इस राशिको मलाकर अब वत्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्य बजट का आकार 01 लाख 27 हज़ार 532 करोड़ रुपए हो गया है।

परमुख बदि

- पहले अनुपूरक बजट में राजस्व, गृह, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक निर्माण वधिन, ग्रामीण आवास सहति वधिन मर्दों में अतरिकित राशिकिा प्रावधान रखा गया है।
- पहले अनुपूरक बजट में 2976 करोड़ रुपए राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय हेतु 3054 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
- गौरतलब है कविवर्ष 2023-24 के मुख्य बजट में 01 लाख 21 हज़ार 500 करोड़ का प्रावधान कयिा गया है और अब प्रथम अनुपूरक बजट में 6 हज़ार 31 करोड़ रुपए का प्रावधान कयिा गया है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने के दौरान सदन को संबोधति करते हुए कहा कइस वर्ष शुरुआती दनिों में कम वर्षा ने चलिा बढ़ाई थी, कतिु अब अचछी बारशि हो रही है, जससे इस वर्ष अचछी फसल की पूरी संभावना है। पछिले कुछ वर्ष में अकाल की स्थति निर्मति नहीं हुई है। सभी मध्यम एवं बड़े बांधों में 60 से 65 परतशित जलभराव हो चुका है।
- उन्होंने कहा कपछिले दो वर्षों में प्रदेश में राजस्व आधकिय की स्थतिरिही है और वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ की वत्तीय स्थति काफी अचछी है।
- सुगम सड़क योजना के बेहतर क्रयान्वयन और आवश्यकता को देखते हुए अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपए का अतरिकित प्रावधान कयिा गया है।
- इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लयि 200 करोड़, रोजगारमूलक एवं आजीविका मूलक योजनाओं के लयि 156 करोड़, खाद्य सुरक्षा के अंतरगत राशन दुकान के संचालक के लयि 95 करोड़ रुपए, सुपोषण अभयान के अंतरगत फोर्टफाईड चावल के वतिरण के लयि 76 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट में अतरिकित प्रावधान कयिा गया है।
- ग्रामीण कषेत्रों में स्वास्थ्य संरचनाओं के वकिस के लयि अनुपूरक बजट में प्रावधान कयिा गए है। शासकीय चकितिसा महावदियालय रायगढ़, बलिसपुर और अंबकियापुर में एमबीबीएस की 50-50 सीटें बढ़ाने पर होने वाले अतरिकित व्यय के लयि अनुपूरक बजट में 45 करोड़ रुपए का प्रावधान कयिा गया है। इसी तरह शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन और अधोसंरचनाओं के वकिस के लयि अनुपूरक बजट में प्रावधान कयिा गया है।
- अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 2000 करोड़ रुपए की महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ-
 - प्रदेश के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 परतशित की बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 परतशित बढ़ोतरी हो चुकी है। 4 परतशित बढ़ोतरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतरिकित व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
 - 37000 संवदिा कर्मयिों के वेतन में 27 परतशित वृद्धिकी गई है। इससे 350 करोड़ रुपए का अतरिकित व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
 - दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धिकी गई है। इससे 240 करोड़ रुपए का अतरिकित व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
 - 1650 अतथि शिक्षकों के मानदेय में 2 हज़ार रुपए मासिक की बढ़ोतरी की गई है, इससे 4 करोड़ रुपए का अतरिकित व्यय राज्य सरकार पर पड़ेगा।
 - 6000 पटवारयिों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता, इससे 4 करोड़ रुपए का अतरिकित व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
 - सभी शासकीय सेवकों को 7वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9 परतशित एवं सी तथा अन्य शहरों हेतु 6 परतशित गृह भाड़ा भत्ता दयिा जाएगा। इससे 265 करोड़ रुपए का अतरिकित व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
 - सभी पुलसि आरक्षणों को 8000 रुपए कटि वार्षिक भत्ता दयिा जाएगा। इसका 40 करोड़ रुपए का अतरिकित व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
 - मतानि ट्रेनर, ब्लॉक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटर को प्रतदिनि दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दयिा जाएगा। इससे 11 करोड़ रुपए का अतरिकित व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
 - 10 हज़ार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दयिा जाएगा। इससे 50 करोड़ रुपए का अतरिकित व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा। इसके अतरिकित उन्हें अर्जति अवकाश, 10 लाख रुपए तक की उपादान राशिएवं 05 लाख रुपए तक चकितिसा व्यय प्रतपूरतिका लाभ भी दयिा जाएगा।
 - शासकीय सेवकों के लयि उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा।
- मुख्यमंत्री वशिष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतरगत अधकितम सहायता राशिकी सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।
- सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारति होने से जरूरतमंद परिवारों को

आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी। इसे दूर करने के लिये राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी। इसके लिये बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/1st-supplementary-budget-for-fy-2023-24-passed-in-the-assembly>

